

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई

संख्या : सं.का./आवास/रिक्ति/ एएसी-II/19/2010

संपदा कार्यालय

08/04/2010

विषय : टाइप एच II क्वार्टरों की रिक्तियां

निम्नांकित आबंटन हेतु उपलब्ध क्वार्टरों की सूची हैं ।

क्रम संख्या	क्वार्टर टाईप	बिल्डिंग संख्या	क्वार्टर संख्या	माला	क्षेत्र
1	एच II	29	244	पहली मंजिल	लेक साइड क्षेत्र
2	एच II	29	246	भूतल	लेक साइड क्षेत्र
3	एच II	29	247	भूतल	लेक साइड क्षेत्र

टाइप H2 क्वार्टर की पात्रता छठवे वेतन आयोग के कार्यान्वयन को मद्देनजर रखते हुए मूल वेतन रु.7730/- या उससे अधिक में संशोधित की गई है ।

कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वेतनमान में दो वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए कॉन्ट्राक्ट/अस्थायी रूप में हुई है (मूल वेतन रु. 3050/- या अधिक है) (पूर्व संशोधित), अथवा 7730/- (संशोधित), वे भी आवेदन करने के लिए पात्रता प्राप्त हैं ।

स्थायी रूप में कार्यरत कर्मचारियों को क्वार्टर आबंटित होने के बाद ही अस्थायी रूप में कार्यरत कर्मचारियों के आबंटन पर विचार किया जाएगा ।

इच्छुक आवेदक उपर्युक्त क्वार्टर का निरीक्षण निम्नलिखित तिथियों को निर्धारित समय पर कर सकते हैं ।

क्रम संख्या	क्वार्टर टाईप	क्वाटर संख्या	दिनांक	समय(से - तक)
1	एच II	244	15-04-2010	दोपहर 2.30 बजे से 4.00 बजे तक
2.	एच II	246	15-04-2010	दोपहर 2.30 बजे से 4.00 बजे तक
3	एच II	247	15-04-2010	दोपहर 2.30 बजे से 4.00 बजे तक

सम्पदा कार्यालय में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं ।

सम्पदा कार्यालय के प्रेषण अनुभाग में आवेदन भरने की अंतिम तिथि है **20/04/2010**.

उपर्युक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को कोई भी कारण बताए बिना अस्वीकार किया जाएगा।

उपर्युक्त क्वार्टर के इच्छुक आवेदक कृपया ध्यान दें कि इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के तुरन्त बाद सम्पदा कार्यालय के सूचना पट्ट पर इसका तुलनात्मक विवरण लगाया जाएगा ।

बंद लिफाफे में प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा कोई भी कारण बताए बिना अस्वीकार किया जाएगा ।

विभागाध्यक्ष /अनुभाग प्रभारियों से निवेदन है कि यह परिपत्र संबंधित विभागों/ अनुभागों के कर्मचारियों को सूचित करने हेतु प्रबंध करें ।

कार्यपालक अभियंता

तथा

सचिव, एएसी- II

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ : 1. अध्यक्ष, एएसी- II

2. श्री. सी.एस.रमेश - उपर्युक्त क्वार्टरों के निरीक्षण हेतु आवश्यक प्रबंधन करने के लिए

3. श्री एस.डी.शिंदे - यथोपरि

4. श्री कुलकर्णी - यथोपरि